



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 1981/पौष 26, 1902

No. 17]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 1981/PAUSA 26, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

मणिपुर-त्रिपुरा

कानून और प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिलेखनाएं

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1981

सांख्यिकी 21(अ).—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) विनियम, 1966 के नियम 4 के साथ पठित अधिलेख भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मणिपुर और त्रिपुरा सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय वन सेवा (संवर्ग) पद संख्या का नियन्त्रण विनियम, 1966 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्न विनियम बनाती है, अर्थात्—

1 (1) इन विनियमों का नाम भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियन्त्रण) संशोधन विनियम 1981 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियन्त्रण) विनियम, 1966 की धनुसूची में मणिपुर-त्रिपुरा अधीन तथा उसके अधीन पाये जाने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्—

1. राज्य सरकारों के अधीन वरिष्ठ पद

27

मणिपुर

मुख्य वनपाल

1

वनपाल

2

उप वनपाल

7

उप वनपाल वन संरक्षण तथा सर्वेक्षण प्रभाग

1

उप वनपाल, वन्यप्राणी

1

उप वनपाल बालू योजना

1

त्रिपुरा

मुख्य वनपाल

1

वनपाल

2

उपवनपाल

9

उप वनपाल, वन्यप्राणी

1

उप वनपाल, बालू योजना

1

27

2 उपर्युक्त 1 के 20 प्रतिशत के हिस्से में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति	5
रिजर्व	32
3 भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति में भरे जाने वाले पद	10
4 सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद	22
5 (i) उपर्युक्त 4 के 15 के हिस्से में भरे जाने वाले पद	3
(ii) त्रिपुरा के लिए तदर्थ प्रतिनियुक्ति रिजर्व	1
6 उपर्युक्त 1 के 10 प्रतिशत के हिस्से में छोटे रिजर्व	2
7 उपर्युक्त 4 के हिस्से में केन्द्रीय पद	1
8 उपर्युक्त 4 के 10 के हिस्से में प्राशिक्षण रिजर्व	2
सीधी भर्ती वाले पद	34
पदोन्नति वाले पद	10
कुल प्राधिकृत पद संख्या	

[सं 16016/12/80-अ.स.स. (अ.स.)-ए]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th January, 1981

G.S.R. No. 21(E) —In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 3 of the All India Service Act, 1951, (61 of 1951), read with rule 4 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government, in consultation with the Governments of Manipur and Tripura, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely —

1.(1) These Regulations may be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Forest Service, (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the heading 'Manipur-Tripura' and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely :—

"MANIPUR-TRIPURA

1. Senior Posts under the State Governments	27
MANIPUR	
Chief Conservator of Forests	1
Conservator of Forests	2
Deputy Conservator of Forests	7
Deputy Conservator of Forests, Forest Resources Survey Division	1
Deputy Conservator of Forest, Wild Life	1
Deputy Conservator of Forests, Working Plan	1

TRIPURA

Chief Conservator of Forests	1
Conservator of Forests	2
Deputy Conservator of Forests	9
Deputy Conservator of Forests, Wild Life	1
Deputy Conservator of Forests, Working Plan	1
2. Central Deputation Reserve @ 20% of 1 above	5
3. Posts to be filled by promotion in accordance with rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules 1966	10
4. Posts to be filled by direct recruitment	22
5. (i) Deputation Reserve @ 15% of 4 above	3
(ii) Ad-hoc deputation Reserve for Tripura	1
6. Leave Reserve @ 11% of 4 above	2
7. Junior Posts @ 20% of 4 above	4
8. Training Reserve @ 10% of 4 above	2
Direct Recruitment Posts	34
Promotion Posts	10
Total Authorized Strength	44

[No 16016 12 80-AIS(IV)-A]

सांकेतिक सं 12(अ) — भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग करने हेतु केन्द्रीय सरकार मणिपुर और त्रिपुरा सरकारों के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 1968 में आगे संशोधन करने के लिए संशोधन निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों का नाम भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम 1981 है।

(2) ये सरकार, जपव में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवक्त रहेंगे।

2 भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम 1968 में —

(क) अनुसूचा III के अन्तर्गत राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के समय वेतनमान में उल्लेखित होने वाले पदों की श्रेणी के प्रथम कालम में पायी जाने वाली "मणिपुर-त्रिपुरा" प्रविष्टि और द्वितीय तथा तृतीय कालमों की सम्बंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् —

"मणिपुर-त्रिपुरा

मणिपुर	2500-125/2-2750
मुख्य वनपाल	
वनपाल	1800-100-2000
त्रिपुरा	
मुख्य वनपाल	2500-125/2-2750
वनपाल	1800-100-2000

(ख) अनुसूचा III के अन्तर्गत राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान वाले पद, जिनमें समय

वेतनमान वाले वेतन के अनुरिक विशेष वेतन वाले पद भी शामिल है, प्रथम कायम में पायी जाने वाली "मणिपुर-त्रिपुरा" प्रविष्टि तथा द्वितीय कायम की नवम्बर्-प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी अर्थात् —

"मणिपुर-त्रिपुरा"

मणिपुर

उपवनपाल

उप वनपाल, वन सर्वेक्षण प्रभाग

उप वनपाल, वन्य प्राणी

उप वनपाल, चालू योजना

त्रिपुरा

उप वनपाल

उप वनपाल, वन्यप्राणी

उप वनपाल, चालू योजना

[सं० 16016/12/80-अ०भा०से० (चार)-ख]
पी० एन० कोहली, हेमक अधिकारी

G S R. 22(E). - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Service Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, the Central Government in consultation with the Governments of Manipur and Tripura, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968, namely —

1. (1) These Rules may be called the Indian Forest Service (Pay) Amendment Rules, 1981

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 1968 :—

(a) In Schedule III-A-Posts carrying pay above the time scale pay in the Indian Forest Service under the State Governments, in the Table, for the entry "Manipur-Tripura" occurring in the first column and the corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted, namely :—

"MANIPUR-TRIPURA"

Manipur

Chief Conservator of Forests 2500-125/2-2750

Conservator of Forests 1800-100-2000

Tripura

Chief Conservator of Forests 2500-125/2-2750

Conservator of Forests 1800-100-2000

(b) In Schedule III-B-Posts carrying pay in the senior time-scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale, for the entry "Manipur-Tripura" occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :—

"Manipur-Tripura"

Manipur

Deputy Conservator of Forests

Deputy Conservator of Forests, Forests Resources Survey Division

Deputy Conservator of Forests, Wild Life

Deputy Conservator of Forests, Working Plan

Tripura

Deputy Conservator of Forests

Deputy Conservator of Forests, Wild Life.

Deputy Conservator of Forests, Working Plan

[No. 16016/12/80 AIS(IV) B
P N KOHLI, Desk Officer

